

**BACHELOR'S PREPARATORY PROGRAMME
(B.P.P.)**

Term-End Examination

00950

December, 2012

**PCO-01 : PREPARATORY COURSE IN
COMMERCE**

Time : 2 hours

Maximum Marks : 50

Note : Attempt all questions. Each question carries one mark.

1. Financial position of the business means :
- (1) Net effect of the business operations
 - (2) Systematic records of business transactions
 - (3) Cash in hand as on balance sheet date
 - (4) What the business owes to others and what it owns at a given point of time

SB

2. The concept of conservatism implies :
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) Understatement of assets | (2) Understatement of liabilities |
| (3) Overstatement of profit | (4) Understatement of losses |

3. Buying and selling activity is called :
- | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--------------|
| (1) Commerce | (2) Industry | (3) Trade | (4) Business |
|--------------|--------------|-----------|--------------|

5. An example of representative personal account is :
- | | |
|----------|----------------------|
| (1) Rent | (2) Prepaid expenses |
| (3) Cash | (4) Commission |
6. Impersonal accounts mean :
- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| (1) Real and nominal accounts | (2) Only real accounts |
| (3) Personal accounts | (4) Only nominal accounts |
7. Purchase of goods on credit will be recorded in :
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| (1) Journal | (2) Purchase book |
| (3) Purchase return book | (4) Cash book |
8. Trial balance includes :
- | | |
|----------------------------|---|
| (1) Only personal accounts | (2) Only real accounts |
| (3) Only nominal accounts | (4) All real, personal and nominal accounts |
9. Drawings account is a :
- | | |
|---------------------|------------------------------|
| (1) Real account | (2) Personal account |
| (3) Nominal account | (4) Real and Nominal account |
10. Narration must be written :
- (1) for every transaction recorded in Journal
 - (2) at the time of preparing Trial Balance
 - (3) at the time of preparing Profit and Loss A/c
 - (4) at the time of preparing Balance Sheet.

12. Trial Balance is prepared :
- (1) before posting in the ledger
 - (2) before preparation of final accounts
 - (3) after preparation of final accounts
 - (4) before recording the transactions in Journal
13. Returns Inwards Book is kept to record :
- (1) return of goods sold
 - (2) credit sales of goods
 - (3) return of goods purchased
 - (4) return of anything sold
14. The balance of Petty Cash Book is :
- (1) an expense
 - (2) an income
 - (3) an asset
 - (4) a liability
15. Rs. 7,000 paid as wages for establishing a plant should be debited to :
- (1) wages A/c
 - (2) plant A/c
 - (3) repair A/c
 - (4) cash A/c
16. According to which concept is the entity of business treated separate from its owner :
- (1) matching concept
 - (2) dual concept
 - (3) business entity concept
 - (4) realization concept
17. Trading Account shows :
- (1) Gross profit/Gross loss of a business
 - (2) Capital employed in the business
 - (3) Net profit/Net loss of a business
 - (4) Financial position of a business
18. Which of the following will not be shown within the balance sheet ?

19. Prepaid expenses shown in Trial Balance will be shown in :
- (1) Manufacturing A/c (2) Balance Sheet
(3) Profit and loss A/c (4) Trading A/c
20. Which account is used for rectification of one sided errors ?
- (1) Capital A/c (2) Bank A/c (3) Suspense A/c (4) Trading A/c
21. Prepaid insurance is :
- (1) an asset (2) a liability (3) a loss (4) a gain
22. The final step of accounting cycle is :
- (1) Trial Balance (2) Balance Sheet (3) Journal (4) Ledger
23. Which of the following normally has a credit balance ?
- (1) Buildings A/c (2) Furniture A/c
(3) Discount allowed A/c (4) Capital A/c
24. Which of the following transactions leads to contra entry in cash book ?
- (1) Rs. 2,000 paid to Anil (2) goods purchased worth Rs. 5,000 on credit
(3) Rs. 5,000 deposited to Bank (4) goods sold for cash Rs. 6,000
25. Real Accounts relate to :
- (1) expenses only (2) incomes only (3) liabilities only (4) assets only

27. Bank overdraft is a :

- (1) short-term liability
- (2) long-term liability
- (3) fixed asset
- (4) current asset

28. Cost of goods sold is equal to :

- (1) Sales - closing stock
- (2) Sales - Gross profit
- (3) Opening stock + purchases + direct expenses
- (4) Opening stock + purchases + closing stock

29. Depreciation of fixed assets is treated as :

- (1) capital expenditure
- (2) capital loss
- (3) revenue expenditure
- (4) revenue loss

30. Manufacturing Account is prepared to find out :

- (1) Gross profit
- (2) Net profit
- (3) Cost of goods produced
- (4) Cost of goods sold

31. Debit balance of suspense account will be shown in :

- (1) Manufacturing A/c
- (2) Trading A/c
- (3) Profit and loss A/c
- (4) Balance sheet

32. The main objective of preparing a Balance sheet is to know :

- (1) the net result of business activities

33. Carriage outwards will be shown in :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) Trading A/c | (2) Profit and loss A/c |
| (3) Manufacturing A/c | (4) Balance sheet |

34. Salaries and wages will be shown in :

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| (1) Manufacturing A/c | (2) Trading A/c |
| (3) Suspense A/c | (4) Profit and loss A/c |

35. Trade mark is a :

- (1) Fictitious asset (2) Tangible asset (3) Intangible asset (4) Current asset

36. Which of the following is a liquid asset ?

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| (1) Stock | (2) Prepaid expenses |
| (3) Government securities | (4) Investments |

37. Interest on capital is shown on the :

- (1) debit side of manufacturing A/c
- (2) credit side of trading A/c
- (3) debit side of profit and loss A/c
- (4) Assets side of a Balance Sheet

38. Opening stock is Rs. 50,000 ; Purchases Rs. 1,00,000 ; Direct expenses Rs. 15,000 ; Closing stock Rs. 65,000. Cost of goods sold will be :

- | | | |
|------------|------------|--------------|
| (1) 50,000 | (2) 65,000 | (3) 1,00,000 |
|------------|------------|--------------|

40. Bad debts recovered will be shown in :

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Trading A/c | (2) Credit side of profit and loss A/c |
| (3) Assets side of balance sheet | (4) Liabilities side of balance sheet |

41. Sales tax paid is a :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| (1) capital expenditure | (2) deferred revenue expenditure |
| (3) revenue expenditure | (4) capital loss to the business |

42. Income tax payable is a :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) current liability | (2) long term liability |
| (3) revenue expenditure | (4) capital expenditure |

43. Profit on sale of old asset will be shown in :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| (1) Trading A/c | (2) Manufacturing A/c |
| (3) Profit and loss A/c | (4) Suspense A/c |

44. Discount on issue of shares is an example of :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| (1) capital expenditure | (2) capital loss |
| (3) deferred revenue expenditure | (4) revenue expenditure |

45. Goods given as charity would be credited to :

- | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|
| (1) purchases A/c | (2) sales A/c | (3) charity A/c | (4) cash A/c |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------|

47. Cash withdrew for personal use will be debited to :
- (1) Cash A/c (2) Drawings A/c (3) Purchases A/c (4) Sales A/c
48. Bank Reconciliation statement is prepared by :
- (1) bank (2) the account holder
(3) purchaser (4) seller
49. Credit purchase of building will be recorded in :
- (1) Purchases Journal (2) Cash book
(3) Journal proper (4) Sales journal
50. A promissory note is written by :
- (1) Buyer (2) Seller (3) Bank (4) Auditor
-

स्नातक प्रारंभिक कार्यक्रम
(बी.पी.पी.)

सत्रांत परीक्षा

दिसम्बर, 2012

पी.सी.ओ.-01 : वाणिज्य में प्रारंभिक पाठ्यक्रम

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है।

1. व्यवसाय की वित्तीय स्थिति से तात्पर्य है :

- (1) व्यावसायिक संक्रियाओं का निवल प्रभाव
- (2) व्यावसायिक लेनदेनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड
- (3) बैलेंस शीट की तिथि पर रोकड़ शेष
- (4) व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्तियों को क्या देय है तथा व्यवसाय किन का स्वामी है, एक दी हुई तिथि पर।

2. अनुदारवादिता की संकल्पना में निहित है :

- (1) परिसंपत्तियों को कम दिखाना।
- (2) देयताओं को कम दिखाना।
- (3) लाभ को अधिक दिखाना।
- (4) हानियों को कम दिखाना।

3. क्रय एवं विक्रय की क्रिया कहलाती है :

- (1) वाणिज्य
- (2) उद्योग
- (3) व्यापार
- (4) व्यवसाय

5. प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते का एक उदाहरण है :
- | | |
|------------|------------------|
| (1) किराया | (2) प्रदत्त व्यय |
| (3) रोकड़ | (4) कमीशन |
6. निर्वैयक्तिक खातों से तात्पर्य है :
- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| (1) वास्तविक एवं आय-व्यय खाते | (2) केवल वास्तविक खाते |
| (3) व्यक्तिगत खाते | (4) केवल आय-व्यय खाते |
7. माल के उधार क्रय को रिकार्ड किया जाएगा :
- | | |
|------------------------|-------------------|
| (1) जर्नल में | (2) क्रय बही में |
| (3) क्रय वापसी बही में | (4) रोकड़ बही में |
8. तलपट में शामिल होते हैं :
- | | |
|-------------------------|--|
| (1) केवल व्यक्तिगत खाते | (2) केवल वास्तविक खाते |
| (3) केवल आय-व्यय खाते | (4) वास्तविक, व्यक्तिगत तथा आय-व्यय खाते सभी |
9. आहरण खाता है एक :
- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| (1) वास्तविक खाता | (2) व्यक्तिगत खाता |
| (3) आय-व्यय खाता | (4) वास्तविक एवं आय-व्यय खाता |
10. व्याख्या (Narration) लिखी जानी चाहिए :
- | |
|--|
| (1) जर्नल में रिकार्ड किए जाने वाले प्रत्येक लेनदेन के लिए |
| (2) वास्तविक खाते में |

11. माल एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्त हुई राशि कहलाती है :

- (1) इक्विटी (2) लाभ (3) आय (4) हानि

12. तलपट बनाया जाता है :

- (1) लेजर में खतौनी करने से पहले
(2) अंतिम खाते बनाने से पहले
(3) अंतिम खाते बनाने के बाद
(4) लेनदेनों को जर्नल में रिकार्ड करने से पहले

13. विक्रय वापसी बही में रिकार्ड किया जाता है :

- (1) बेचे गए माल की वापसी को (2) उधार माल के विक्रय को
(3) क्रय किए गए माल को (4) विक्रय की गई किसी भी वस्तु की वापसी को

14. खुदरा रोकड़ बही का शेष है :

- (1) एक व्यय (2) एक आय (3) एक परिसंपत्ति (4) एक देयता

15. एक प्लान्ट को स्थापित करने के लिए दी गए मजदूरी के 7,000 रु. डेबिट किए जाएंगे :

- (1) मजदूरी खाते को (2) प्लान्ट खाते को (3) मरम्मत खाते को (4) रोकड़ खाते को

16. किस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के अस्तित्व को उस के स्वामी से भिन्न माना जाता है ?

- (1) मिलान की संकल्पना (2) द्विपक्षीय संकल्पना
(3) व्यावसायिक वस्तु संकल्पना (4) वसूली की संकल्पना

17. व्यापार खाता दर्शाता है :

- (1) व्यवसाय के सकल लाभ/सकल हानि को

18. निम्नलिखित में से किसे बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा ?
- (1) देनदार (2) लेनदार
(3) ख्याति (4) प्रासंगिक देयता
19. तलपट में दिए प्रदत्त व्यय दिखाए जाएंगे :
- (1) विनिर्माण खाते में (2) बैलेंस शीट में
(3) लाभ-हानि खाते में (4) व्यापार खाते में
20. एक पक्षीय अशुद्धियों के शोधन के लिए किस खाते का उपयोग किया जाता है ?
- (1) पूंजी खाता (2) बैंक खाता
(3) निलंबित खाता (उचंत खाता) (4) व्यापार खाता
21. प्रदत्त बीमा व्यय है :
- (1) एक परिसंपत्ति (2) एक देयता (3) एक हानि (4) एक लाभ
22. लेखांकन चक्र का अंतिम चरण है :
- (1) तलपट (2) बैलेंस शीट (3) जर्नल (4) खाता बही
23. निम्नलिखित में से किस खाते का शेष सामान्यतया क्रेडिट शेष होता है ?
- (1) भवन खाते का (2) फर्नीचर खाते का
(3) दी गई छूट खाते का (4) पूंजी खाते का
24. निम्नलिखित में से किस लेनदेन के लिए रोकड़ बही में प्रति प्रविष्टि (contra entry) की जाएगी ?
- (1) अनिल को 2,000 रु. का भुगतान किया। (2) 5,000 रु. का उधार माल खरीदा।
(3) बैंक में 5,000 रु. जमा कराए। (4) 6,000 रु. का नकद माल बेचा।

26. बैंक द्वारा दी जाने वाली ग्राहक के खाते की नकल दी जाती है :
- (1) रोकड़ बही में (2) चैक बुक में (3) पास बुक में (4) क्रय बही में
27. बैंक ओवरड्राफ्ट है एक :
- (1) अल्पकालीन देयता (2) दीर्घकालीन देयता
(3) स्थायी परिसंपत्ति (4) चालू परिसंपत्ति
28. बेचे गए माल की लागत बराबर है :
- (1) विक्रय - अंतिम स्टॉक
(2) विक्रय - सकल लाभ
(3) प्रारम्भिक स्टॉक + क्रय + प्रत्यक्ष मजदूरी
(4) प्रारम्भिक स्टॉक + क्रय + अंतिम स्टॉक
29. स्थायी परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्य ह्रास को माना जाता है :
- (1) पूंजीगत व्यय (2) पूंजीगत हानि
(3) आयगत व्यय (4) आयगत हानि
30. विनिर्माण खाता बनाया जाता है :
- (1) सकल लाभ ज्ञात करने के लिए
(2) निवल लाभ ज्ञात करने के लिए
(3) उत्पादित माल की लागत ज्ञात करने के लिए
(4) बेचे गए माल की लागत ज्ञात करने के लिए

32. बैलेंस शीट बनाने का मुख्य उद्देश्य है :

- (1) व्यावसायिक कार्यों का निवल परिणाम ज्ञात करना
- (2) लेखा कार्य की अंकगणितीय परिशुद्धता ज्ञात करना
- (3) व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना
- (4) व्यवसाय में लगी पूंजी ज्ञात करना

33. निर्गत वाहन व्यय (Carriage outwards) दिखाया जाएगा :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) व्यापार खाते में | (2) लाभ-हानि खाते में |
| (3) विनिर्माण खाते में | (4) बैलेंस शीट में |

34. वेतन एवं मजदूरी दिखाई जाएगी :

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| (1) विनिर्माण खाते में | (2) व्यापार खाते में |
| (3) उचंत खाते में | (4) लाभ-हानि खाते में |

35. ट्रेड मार्क है एक :

- | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| (1) कृत्रिम परिसंपत्ति | (2) मूर्त परिसंपत्ति | (3) अमूर्त परिसंपत्ति | (4) चालू परिसंपत्ति |
|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|

36. निम्नलिखित में से कौन सी मद तरल परिसंपत्ति है ?

- | | |
|-------------------------|------------------|
| (1) स्टॉक | (2) प्रदत्त व्यय |
| (3) सरकारी प्रतिभूतियां | (4) निवेश |

37. पूंजी पर ब्याज दिखाया जाता है :

- (1) विनिर्माण खाते के डेबिट पक्ष में
- (2) व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में

38. प्रारम्भिक स्टॉक है 50,000 रु. ; क्रय 1,00,000 रु. ; प्रत्यक्ष व्यय 15,000 रु. ; अंतिम स्टॉक 65,000 रु. ; माल की लागत होगी :
- (1) 50,000 रु. (2) 65,000 रु. (3) 1,00,000 रु. (4) 2,30,000 रु.
39. निम्नलिखित में से कौन सी मद चालू परिसंपत्ति नहीं है ?
- (1) देनदार (2) स्टॉक (3) रोकड़ शेष (4) फर्नीचर
40. वसूल हो गए डूबत ऋण दिखाए जाएंगे :
- (1) व्यापार खाते में (2) लाभ-हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में
(3) बैलेंस शीट के परिसंपत्तियां पक्ष में (4) बैलेंस शीट के देयताओं पक्ष में
41. भुगतान किया गया विक्रय कर है एक :
- (1) पूंजीगत व्यय (2) आस्थगित आयगत व्यय
(3) आयगत व्यय (4) पूंजीगत हानि
42. देय आयकर है एक :
- (1) चालू देयता (2) दीर्घकालीन देयता
(3) आयगत व्यय (4) पूंजीगत व्यय
43. पुरानी परिसंपत्ति के विक्रय पर हुआ लाभ दिखाया जाएगा :
- (1) व्यापार खाते में (2) विनिर्माण खाते में
(3) लाभ-हानि खाते में (4) उचंत खाते में
44. शेयरों के निर्गमन पर दी गई छूट एक उदाहरण है :
- (1) पूंजीगत व्यय का (2) पूंजीगत हानि का
(3) आस्थगित आयगत व्यय का (4) आयगत व्यय का

46. एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ दान है एक :
- (1) पूंजीगत प्राप्ति (2) आयगत प्राप्ति
(3) पूंजीगत व्यय (4) आयगत व्यय
47. व्यक्तिगत व्यय के लिए निकाली गई रोकड़ को डेबिट किया जाएगा :
- (1) रोकड़ खाते को (2) आहरण खाते को (3) क्रय खाते को (4) विक्रय खाते को
48. बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है :
- (1) बैंक द्वारा (2) खाताधारी द्वारा
(3) क्रेता द्वारा (4) विक्रेता द्वारा
49. भवन का उधार क्रय रिकॉर्ड किया जाएगा :
- (1) क्रय जर्नल में (2) रोकड़ बही में
(3) मुख्य जर्नल में (4) विक्रय जर्नल में
50. प्रोनोट लिखा जाता है :
- (1) क्रेता द्वारा (2) विक्रेता द्वारा (3) बैंक द्वारा (4) अंकेक्षक द्वारा
-